

## पोत परिवहन मंत्रालय

### अगस्त, 2020 महीने की प्रमुख उपलब्धियां

#### पत्तन

- i. **कूज उद्योग के लिए राहत:-** कोविड-19 महामारी के कारण कूज पोत परिवहन व्यापार पर प्रतिकूल पभाव पड़ा है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कूज उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से महापत्तनों पर प्रवेश करने वाले कूज जलयानों के लिए प्रशुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाया है।
- ii. **चेन्नई पत्तन** ने कूड ऑयल की संभलाई में लेंडमार्क स्थापित किया है। दिनांक 09.08.2020 को इस पत्तन ने जलयान एम.टी.क्रिमसन पर कूड ऑयल के 1,15,500 टन की संभलाई की जो दिनांक 21.06.2020 को जलयान एम.टी.माउंट फ्यूजी से डिसचार्ज किए गए 1,14,000 टन के पिछले रिकार्ड से अधिक है।
- iii. **मुरगांव पत्तन** ने अगस्त, 2019 की तुलना में अगस्त, 2020 में अपना कार्गो यातायात 10% बढ़ाया।
- iv. **नवमंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी):-** दिल्ली के एक प्रमुख बेबीफूड उत्पाद निर्माता एफएमसीजी कंपनी ने अपने उत्पाद बंगलादेश में निर्यात करने के लिए एनएमपीटी को पोर्ट ऑफ शिपमेंट नामित किया है। आवागमन शुरू हो गया है और यह नियमित रूप से चलता रहेगा।
- v. **पारादीप पत्तन:-** औसत जलयान टर्नअराउंड समय और औसत प्री बर्थिंग देरी अगस्त, 2019 के क्रमशः 71.51 घंटे और 16.38 घंटे की तुलना में अगस्त, 2020 में सुधरकर 65.70 घंटे और 4.45 घंटे हो गई है।

#### सागरमाला

- i. **समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास:-** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की उपस्थिति में दिनांक 20.08.2020 को पोत परिवहन मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के संबंध में एक एमओयू पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के अनुसार कूज पर्यटन, लॉजिस्टिक, मत्स्ययन, पोत निर्माण, पोत मरम्मत और पोत भंजन, ड्रेजिंग तथा अपतट आपूर्ति श्रृंखला

आदि के लिए पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पेशेवर मानक, विषय आदि तैयार करने में एमएसडीई सहयोग करेगा। तटीय जिलों के कौशल अंतर के अनुसार अपेक्षित कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए यह आईटीआई, एनएसटीआई और पीएमकेके तथा पीएमकेवीवाई केंद्रों जैसी मौजूदा अवसंरचनाओं का भी उपयोग करेगा। एमएसडीई पत्तन और समुद्री क्षेत्र में निजी क्षेत्र/ सीएसआर फंडिंग को कौशल विकास हेतु प्रेरित करने में सहायता करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ कौशल विकास के लिए हस्ताक्षरित टीवीईटी समझौतों में पत्तन तथा समुद्री क्षेत्र को सुविधा प्रदान करेगा।

*ii.घोघा-दाहेज तथा घोघा-हाजीरा के बीच रो-रो फेरी सेवा:-* घोघा-दाहेज के बीच रो-रो फेरी सेवा दुबारा शुरू करने तथा घोघा-हाजीरा के बीच रो-रो फेरी सेवा का शुरू करने का कार्य पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) को सौंपा गया है। 3 महीने की अवधि के अंदर हाजीरा पर लीज आधार पर विकसित रो-रो सेवा प्रदान करने के लिए डीपीटी ने सफल बोलीकर्ता मैसर्स अदानी हाजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवॉर्ड (एमओए) जारी किया है ताकि घोघा-दाहेज फेरी सेवा शुरू की जा सके।

*iii.राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी):-* राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), गुजरात सरकार को प्रस्तुतीकरण देने के पश्चात् इस परियोजना को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) को भेजा गया है। गुजरात सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय, गुजरात सरकार और आईपीआरसीएल के बीच एनएमएचसी के विकास के लिए त्रिपक्षीय एमओयू हेतु माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से अवगत कराया है।

*iv.सागरमाला के तहत परियोजनाएं:-* पोत परिवहन मंत्रालय ने कान्होजी आंग्रे दीपस्तंभ पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए मुंबई पत्तन न्यास को वित्तीय सहायता के रूप में 3.84 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं और 1.92 करोड़ रूपए की पहली किश्त जारी की है।

### **पोत परिवहन**

*i.भारतीय नौवहन निगम:-* एससीआई के वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के स्टैंडएलोन और समेकित लेखों हेतु गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल ने दिनांक 07 अगस्त, 2020 को अयोजित बैठक में स्वीकार किया था। एससीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 की

पहली तिमाही के लिए 317 करोड़ रूपए का स्टैंडएलोन निवल लाभ रिपोर्ट किया है जो कि 54 तिमाहियों में रिपोर्ट किए गए निवल लाभों में सबसे अधिक है।

- ii. **नौवहन महानिदेशालय:-** दिनांक 07 अगस्त, 2020 को केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से समुद्रकर्मियों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा शुरू की। नौवहन महानिदेशालय के अंतर्गत विभिन्न समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाने वाले समुद्रकर्मी अब कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व समय में अपने घर से परीक्षा दे सकेंगे।
- iii. **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड:-** कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मत्स्य पालन विभाग, केरल सरकार के लिए बनाई जाने वाली 3 समुद्री एंबुलेंस नौकाओं की श्रृंखला में पहले एंबुलेंस 'प्रतीक्षा' का 'फ्लैग-ऑफ' समारोह दिनांक 27.08.2020 को आयोजित किया गया।

### **अंतर्देशीय जल परिवहन**

**त्रिपुरा के लिए नई अंतर्देशीय संपर्कता शुरू करना:-** भारत और बांग्लादेश द्वारा दिनांक 20.05.2020 को हस्ताक्षरित अंतर्देशीय जल परिवहन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटीएंडटी) के दूसरे परिशिष्ट के अंतर्गत त्रिपुरा को एक नई अंतर्देशीय जल संपर्कता प्रदान की गई है। उद्योग और हितधारकों के बीच दाउदकांडी-सोनामुरा व्यापार मार्ग को प्रोत्साहित करने के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा दिनांक 04.08.2020 को "सोनामुरा-जलमार्ग के माध्यम से त्रिपुरा का गेटवे" विषय पर एक वेबीनार आयोजित किया गया।